

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 170] नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 6, 1983/चैत्र 16, 1905
No. 170] NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 6, 1983/CHAITRA 16, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
(भारतीय चिकित्सा प्रमाण)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 अप्रैल, 1983

का०अ० 281(अ).—भारत सरकार, भारतीय चिकित्सा, केन्द्रीय परिषद् (निर्वाचन) नियमावली, 1975 के नियम 2 के खण्ड (घ) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की 5 जनवरी, 1983 की अधिसूचना सं० एस०ओ० 5 (ई) में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना की सारणी में,—

(अ) क्रम सं० 10 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

1	2	3
"10.	श्री के०पी० कृष्ण नायर, केरल सरकार के उप-सचिव, स्वास्थ्य विभाग, त्रिवेन्द्रम-695001।	केरल";
(ब)	क्रम सं० 15 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—	
"16.	बैद्य मनमोहन प्रसाद शर्मा, रजिस्ट्रार, भारतीय चिकित्सा बोर्ड, राजस्थान सरकार, बाज़ाज नगर, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर।	राजस्थान"

[सं० बी-28018/3/82-निर्वाचित सैल]

एस० के० सुधाकर, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE
(ISM Division)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th April, 1983

S.O. 281(E).—In exercise of the powers conferred by clause (d) of rule 2 of the Indian Medicine Central Council (Election) Rules, 1975, the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Health and Family Welfare No. S.O. 5(E), dated the 5th January, 1983, namely :—

In the Table to the said notification,—

(a) for serial number 10 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely—

1	2	3
"10.	Shri K. P. Krishnan Nair, Deputy Secretary to the Government of Kerala, Health Department, Trivandrum-695001.	Kerala";

1	2	3
(b) for serial No. 15 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely—		
"15. Vaidya Ghanshyam Prasad Sharma, Registrar, Board of Indian Medicine, Government of Rajasthan, Bajaj Nagar, Jawaharlal Nehru Marg, Jaipur.		Rajasthan".

[No. V. 26018/3/82-Election Cell]

S. K. SUDHAKAR, Jt. Secy.

